

Question Paper No. :  
Scholar No. :   
Roll No. :   
Centre Seal :   
Sign. of Invigilator :   
Date :

## BLIS-03(Gp.-08)

December – Examination 2023

### Bachelor of Library and Information Science Examination

Library Classification—Practice

पुस्तकालय वर्गीकरण—प्रायोगिक

Paper : BLIS-03(Gp.-08)

Time : 3 Hours ]

[ Maximum Marks : 70

BLIS-03(Gp.-08)/8

( 1 )

**TG-83** Turn Over

Note :-

- (i) Answer of the following questions are to be given in the question paper itself. For rough work blank pages have been provided in the question paper itself.
- (ii) The question paper is divided into two Sections A and B. Questions in the both Sections are to be attempted compulsorily as per instructions.
- (iii) A copy of Colon Classification (Reprint 6th edition) and a set of Dewey Decimal Classification (Ed. 19th) are available for use and return.

निर्देश :-

- (i) प्रश्नों के उत्तर प्रश्न-पत्र में ही देने हैं। रफ कार्य के लिए प्रश्न-पत्र में ही पृष्ठ संलग्न हैं।
- (ii) प्रश्न-पत्र दो खण्डों 'अ' एवं 'ब' में विभाजित है। दोनों खण्डों के प्रश्न निर्देशानुसार करना अनिवार्य है।
- (iii) द्विबिन्दु वर्गीकरण (संस्करण-6, पुनर्मुद्रित) तथा ड्यूई दशमलव वर्गीकरण (संस्करण-19वाँ) प्रयोगार्थ उपलब्ध है।

#### Section-A

#### (Colon Classification-Practice)

Note :- Assign class number according to Colon Classification (Ed. 6th Reprint) in the space provided below each title.

#### खण्ड—'अ'

#### (द्विबिन्दु वर्गीकरण—प्रायोगिक)

निर्देश :- द्विबिन्दु वर्गीकरण (संस्करण-6, पुनर्मुद्रित) के अनुसार वर्गीकृत कीजिए तथा वर्गांक सम्बन्धित शीर्षक के नीचे निर्धारित स्थान पर लिखिए।

BLIS-03(Gp.-08)/8

( 2 )

**TG-83**

1. Classify any *five* of the following titles :  $5 \times 1\frac{1}{2} = 7\frac{1}{2}$   
निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच शीर्षकों को वर्गीकृत कीजिए :

Class No.  
(वर्गांक)

(i) Roots of orange tree  
\_\_\_\_\_

(ii) Physics curriculum in secondary school  
\_\_\_\_\_

(iii) Ayurvedic treatment of liver disease  
\_\_\_\_\_

(iv) Bibliographic classification scheme (1934)  
\_\_\_\_\_

(v) Maintenance of window of a sand stone building  
\_\_\_\_\_

(vi) Painting of Pallava period  
\_\_\_\_\_

(vii) Classification of pteridophyta plants  
\_\_\_\_\_

2. Classify any *five* of the following titles :  $5 \times 2\frac{1}{2} = 12\frac{1}{2}$   
निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच शीर्षकों को वर्गीकृत कीजिए :

Class No.  
(वर्गांक)

(i) History of Egypt from 1979–1996  
\_\_\_\_\_

(ii) Travelling in Himachal Pradesh during snow  
\_\_\_\_\_

(iii) Rural population of North Mumbai  
\_\_\_\_\_

(iv) Social condition of people in outside Delhi  
\_\_\_\_\_

(v) Difference between Saivism and Saktivism  
\_\_\_\_\_

(vi) Future of animal husbandry in India  
\_\_\_\_\_

(vii) Influence of mathematics on physics  
\_\_\_\_\_

3. Classify any *five* of the following titles :  $5 \times 3 = 15$   
निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच शीर्षकों को वर्गीकृत कीजिए :

Class No.  
(वर्गांक)

(i) Engineering profession in England  
\_\_\_\_\_

(ii) Discussion on Indian philosophy  
\_\_\_\_\_

(iii) Russian literary criticism  
\_\_\_\_\_

(iv) Report of Indian Banking Commission, 1962  
\_\_\_\_\_

(v) Kashmiri-Assamese dictionary

---

(vi) Indian journal of documentation

---

(vii) All India Conference on Pediatrics

---

### Section-B

#### (Dewey Decimal Classification-Practice)

**Note :-** Assign class number according to Dewey Decimal Classification (Ed. 19th) in the space provided below each title.

खण्ड-‘ब’

(ड्यूई दशमलव वर्गीकरण-प्रायोगिक)

**निर्देश :-** ड्यूई दशमलव वर्गीकरण (संस्करण-19वाँ) के अनुसार वर्गीकृत कीजिए तथा वर्गांक सम्बन्धित शीर्षक के नीचे निर्धारित स्थान पर लिखिए।

4. Classify any *five* of the following titles :  $5 \times 1\frac{1}{2} = 7\frac{1}{2}$   
निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच शीर्षकों को वर्गीकृत कीजिए :

Class No.  
(वर्गांक)

(i) Liberal education

---

(ii) Memory and learning

---

(iii) Information storage and retrieval system

---

(iv) Thai language

---

(v) Analytical bibliography

---

(vi) National banks

---

(vii) Tunnels engineering

---

5. Classify any *five* of the following titles :  $5 \times 2\frac{1}{2} = 12\frac{1}{2}$   
निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच शीर्षकों को वर्गीकृत कीजिए :

Class No.  
(वर्गांक)

(i) Scientific principles of mineralogy

---

(ii) Contribution of Indian to library classification

---

(iii) Journal of Algebra

---

(iv) Journalism in 19th century

---

(v) Migration of people from USA to India

---

(vi) Colonization by United Kingdom in China

---

(vii) Public libraries in India

---

**Rough Work (रफ़ कार्य)**

6. Classify any *five* of the following titles : **5×3=15**

निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच शीर्षकों को वर्गीकृत कीजिए :

Class No.

(वर्गांक)

(i) Physics for mathematicians

---

(ii) Ethics of sociologists

---

(iii) Collection of 16th century literature

---

(iv) Collection of drama on social themes

---

(v) Spelling of Russian Words

---

(vi) Latin words in English language

---

(vii) General encyclopedia in Spanish

---